



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 874) पटना, शुक्रवार, 29 नवम्बर 2013

सं0 6एस0एस(6)47/2013—2839
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

संकल्प
29 नवम्बर 2013

विषय:—बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन।

बिहार सरकार राज्य ने मछुआरों के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्प है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा गठित “किसान आयोग” के कार्य एवं दायित्व में “मछली पालन” भी शामिल है; उसके बावजूद मछुआरा समाज के बहुमुखी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परिपेक्ष्य में मछुआरों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं आर्थिक अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसायें करने के लिए “राज्य मछुआरा आयोग के गठन” का निर्णय लिया गया है।

(2) उक्त उद्देश्य हेतु आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:—

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) तीन सदस्य। (जिसमें न्यूनतम एक महिला सदस्य होगी)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।

(3) आयोग का कार्य एवं दायित्व:—

(क) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

(ख) इसके अतिरिक्त नीति/कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक सुझाव दे सकेगा, जिससे मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। नई योजनाओं के लिए सुझाव समर्पित कर सकेगा।

(ग) मत्स्य-जीवी सहयोग समितियों के गठन, प्रबंधन एवं अंकेक्षण के संबंध में सम्यक अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव समर्पित करेगा।

(घ) मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि एवं अन्य सुसंगत विषयों यथा मत्स्य बीज उत्पादन, पूरक आहार उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य एवं विपणन पर सुझाव दे सकेगा।

नोट:—(I) आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से आर्थिक सामाजिक अध्ययन के लिए सरकारी विभागों या अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकेगा।

(II) आयोग अपने कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना मांगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने हेतु सक्षम होगा।

(4) (क) अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत से अगले आदेश तक या अधिकतम तीन वर्षों की अवधि का होगा।

(ख) कोई भी सदस्य अथवा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(5) मछुआरा आयोग के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री/ उप मंत्री का दर्जा देय होगा। उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ देय होंगी, जो राज्य मंत्री/ उपमंत्री को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के परिपत्र 502 दिनांक 08.03.2007 एवं 298 दिनांक 27.04.2012 के तहत प्रावधान किया गया है।

(6) आयोग के सदस्यों को 15000 रुपये वेतन, आहुत बैठकों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, 800 रुपया एवं अनुमान्य यात्रा भत्ता 10 रुपये प्रति किलोमीटर देय होगा। पटना में आवास रहने पर 5000 रुपये प्रतिमाह की दर से आवास भत्ता देय अनुमान्य होगा। दुरभाष मद् में मोबाईल रिचार्ज के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह देय होगा।

(7) राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी सेवारत या सेवा निवृत्त पदधिकारी को आयोग के सचिव के मद् पर नियुक्त/मनोनीत करेगी, जो न्यूनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव रखते हो।

(8) वित्त लेखा एवं अंकेक्षणः—

(क) राज्य सरकार (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) अनुदान के रूप में आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी।

(ख) आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(9) आयोग का प्रशासी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग होगा।

(10) आयोग के दैनिक कार्यों में होने वाले कठिनाईयों का निदान प्रशासी विभाग के द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाएगा।

(11) प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की सम्पन्न बैठक में दिनांक 12.11.13 को मद् संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

संचिका सं0 6एस0एस0(6)47/2013 के पृ0-15/टि0।

आदेशः—अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/ बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र नारायण महतो,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 874-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>